

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2

PART I—Section 2

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 12] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 17, 1972/श्रावण 26, 1894

No. 12] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 17, 1972/SRAVANA 26, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th August 1972

No. 3/10/72-AIS(IV).—The following notifications of the Government of India in the Ministry of Home Affairs (appointing certain officers of the Uttar Pradesh State Forest Service to the Indian Forest Service in the Indian Forest Service Cadre of Uttar Pradesh, namely:—

- (i) No. 3/10/66-AIS(IV), dated 3rd February, 1967.
- (ii) No. 3/10/66-AIS(IV), dated 10th March, 1967.
- (iii) No. 3/10/66-AIS(IV), dated 1st July, 1967.
- (iv) No. 3/10/66-AIS(IV), dated 18th October, 1967.
- (v) No. 3/36/67-AIS(IV), dated 30th January, 1968.
- (vi) No. 3/20/68-AIS(IV), dated 20th May, 1969.

are hereby formally cancelled consequent on the judgment of the High Court of Allahabad in Civil Miscellaneous Writ Jurisdiction case No. 1586 of 1968.

SHRAVAN KUMAR, Jt. Secy.

मंत्रिमण्डल सचिवालय

(कामिक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 1972

सं० 3/10/72-आ० भा० से० (4) :—इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सिविल मिसलेनियस रिट ज्यूरिसडिक्शन केस संख्या 1968 का 1586 में लिये गये निर्णय के परिणाम स्वरूप गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गयी निम्नलिखित अधिसूचनाओं को, (जिनके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य वन सेवा के कुछ अधिकारियों को भारतीय वन सेवा में उत्तर प्रदेश के भारतीय वन सेवा संवर्ग में नियुक्त किया गया था) एतद्द्वारा औपचारिक रूप से रद्द किया जाता है :—

- (1) संख्या 3/10/66-ए० आई० एस० (4) दिनांक 3-2-1967
- (2) संख्या 3/10/66-ए० आई० एस० (4) दिनांक 10-3-1967
- (3) संख्या 3/10/66-ए० आई० एस० (4) दिनांक 1-7-1967
- (4) संख्या 3/10/66-ए० आई० एस० (4) दिनांक 18-10-1967
- (5) संख्या 3/36/67-ए० आई० एस० (4) दिनांक 30-1-1968
- (6) संख्या 3/20/68-ए० आई० एस० (4) दिनांक 20-5-1969

श्रवण कुमार, संयुक्त सचिव ।